

#मैं भी हीरो

टेक महिंद्रा फाउंडेशन की देशव्यापी कौशल-प्रशिक्षण पहल

अस्पताल स्वच्छता सहायक कोर्स: परिचय

कोविड-19 महामारी की शुरुआत के तुरंत बाद [टेक महिंद्रा स्मार्ट एकेडमी फॉर हैल्थकेयर \(TMSAH\)](#) ने "अस्पताल स्वच्छता सहायक" (HGA) के नाम से अल्पकालिक पाठ्यक्रम तैयार किया है। अस्पताल परिसरों में उंचे स्तर की स्वच्छता एवं सेनिटाइज़ेशन के लिए भारी मांग को देखते हुए ऐसा किया गया है। कुशल कर्मचारियों की इस आपात मांग को पूरा करने के लिए TMSAH टीम ने कुछ ही समय में लोगों में कुशलता-वर्धन के लिए HGA कोर्स डिजाइन किया है। इस कोर्स में संक्रमण नियंत्रण प्रक्रियाएं, व्यक्तिगत स्वच्छता, अस्पताल कूड़ा प्रबंधन (Hospital Waste Management), और सैनिटेशन (सफ़ाई व्यवस्था) के बुनियादी सिद्धांत शामिल हैं। साथ ही यह हैल्थकेयर सेक्टर स्किल काउंसिल (HSSC) ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित है।

यह कोर्स [टेक महिंद्रा फाउंडेशन \(TMF\)](#) की स्मार्ट एकेडमी फॉर हैल्थकेयर का हिस्सा है और उसके प्रमुख कार्यक्रम SMART (Skills-for-Market Training) के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। जून 2020 में शुरू हुए इस HGA कोर्स को स्वास्थ्य क्षेत्र से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। स्वच्छता और सैनिटेशन बनाए रखने की आपात ज़रूरत को देखते हुए, आने वाले समय में प्रशिक्षित कर्मचारियों की मांग बढ़ने का अनुमान है। इसलिए, TMF इसे "मैं भी हीरो" नाम के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनाकर इस पहल को और विस्तार देने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। इस पहल को अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा और बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संस्थाओं (NGOs) के साथ भागीदारी में अक्टूबर 2020 से देश भर में कार्यान्वित किया जाएगा। इससे प्रतिभागियों को न सिर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में, बल्कि स्वच्छता और साफ-सफाई की मांग वाले अन्य प्रतिष्ठानों में भी रोजगार के अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

कोर्स का स्कोप (कार्य क्षेत्र)

HGA कोर्स में प्रतिभागियों को विभिन्न तरीकों से (जैसे सजीव वीडियो सत्र या Live Video Session, WhatsApp पर दी गई अध्ययन सामग्री, Youtube वीडियो आदि) ऑनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। यह प्रशिक्षण 50 घंटों का होगा, और इसके अलावा प्रतिभागियों को 40 घंटों का किसी अस्पताल या अन्य स्वास्थ्य-केंद्र पर ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (On-The-Job Training) कराया जायेगा। सफलतापूर्वक कोर्स पूरा होने के बाद, प्रतिभागी को HSSC द्वारा कराई जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस मूल्यांकन को पूरा करने के बाद TMF और HSSC द्वारा एक संयुक्त प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

कोर्स किसके लिए है?

- फ्रेशर्स, जिन्हें पहले काम का कोई अनुभव न हो।
- काम का अनुभव रखने वाले लोग, जो अतिरिक्त कौशल सीखना चाहते हैं और इसके लिए एक सरकारी प्रमाण पत्र हासिल करना चाहते हैं।
- जो लोग स्वास्थ्य या अन्य किसी क्षेत्र में हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में पहले से काम कर रहे हैं और "अस्पताल स्वच्छता सहायक" के रूप में कुशल होना चाहते हैं।

प्रतिभागी क्या सीखेंगे?

- अच्छी स्वच्छता और सैनिटेशन (सफ़ाई व्यवस्था) के बुनियादी सिद्धांत।
- अस्पताल कूड़ा प्रबंधन।
- संक्रमण नियंत्रण की प्रक्रियाएं।
- व्यक्तिगत विकास और स्वच्छता।

NGO के साथ भागीदारी:

टेक मिहंद्रा फाउंडेशन की देश भर में बड़ी संख्या में इच्छुक NGOs के साथ भागीदारी कायम करने की योजना है। वे इस [आवेदन पत्र](#) को भरकर इस भागीदारी के प्रति अपनी दिलचस्पी प्रकट कर सकते हैं।

जमा किए गए आवेदनों की TMF द्वारा जांच की जाएगी और चयनित NGOs को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने के लिए कहा जाएगा:

1. अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र (ट्रस्ट डीड/ सोसायटी पंजीकरण प्रमाण पत्र/ निगमन प्रमाण पत्र)
2. 12ए प्रमाण पत्र की प्रति।
3. 80जी प्रमाण पत्र की प्रति।
4. एक कैसिल चेक के साथ बैंक खाते का विवरण।

उन्हें प्रतिभागियों की अनुमानित संख्या भी सूचित करनी होगी, जिनका वे कोर्स के लिए नामांकन कराने में सक्षम हैं। सांकेतिक संख्या का मतलब ऐसे आवेदकों की संख्या होगी, जो कोर्स से जुड़ेंगे और 15 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करेंगे।

एक बार ये सभी जानकारियां मिलने और TMF द्वारा समीक्षा किए जाने के बाद, NGO को इस परियोजना के लिए साथ में काम कर रहे भागीदार के रूप में चुना जायेगा। यह चुनिंदा NGO क्रियान्वन-भागीदार, या Implementation Partners (IP) कहलाएंगे।

HGA कोर्स के लिए आवेदक प्रतिभागियों के लिए पात्रता और अन्य आवश्यकताएं:

1. न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण।
2. 18 और 35 वर्ष के बीच उम्र।
3. एक आधार संख्या या कोई अन्य सरकारी आईडी होनी चाहिए।
4. कोर्स के दौरान प्रति दिन कम से कम 4 घंटे के लिए इंटरनेट कनेक्शन के साथ एक स्मार्टफोन की सुविधा हो।

Implementation Partners (IP) से अपेक्षाएं:

IP से निम्नलिखित उम्मीदें की जाएंगी:

- HGA कोर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागी (न्यूनतम 50) जुटाना, जो कार्यक्रम में नामांकन के लिए आवश्यक पात्रता को पूरा करते हों।
- इस पहल के लिए तैयार MIS (Management Information System) में चयनित अभ्यर्थियों का विवरण उपलब्ध कराना। प्रत्येक IP को हर प्रतिभागी के बारे में जानकारी भरने के लिए एक Login ID मिलेगी।
- अपनी टीम से कम से कम एक व्यक्ति को कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षक नामित करना। प्रशिक्षक को पूर्व में युवाओं को किसी प्रकार का प्रशिक्षण देने का कुछ अनुभव होना चाहिए।
- कोर्स के लिए नामांकन कराने वाले प्रतिभागियों को 5 दिन का ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण देने के लिए अपने शहर/ गांव के कुछ अस्पतालों, पीएचसी, नर्सिंग होम्स, क्लीनिक्स आदि से संपर्क करना। प्रशिक्षित विद्यार्थियों की नौकरी पाने में सहायता करना।

टेक महिंद्रा फाउंडेशन से साथ में काम कर रहे Implementing Partners को क्या मिलेगा

- सभी IP's के लिए एक Online Orientation Session कराया जाएगा और MIS का विवरण दिया जाएगा, जिसमें उन्हें विद्यार्थियों का डाटा भरना है।
- TMF द्वारा प्रचार सामग्री (जैसे posters, pamphlets इत्यादि) उपलब्ध कराई जाएंगी, जिन्हें NGO द्वारा विद्यार्थियों को जुटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- NGO द्वारा नामित प्रशिक्षक या प्रशिक्षकों को विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें उन बैचों में से एक में शामिल होने के लिए कहा जा सकता है जिसमें विद्यार्थियों को TMF के Master Trainer द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- TMF द्वारा प्रशिक्षण के लिए पूरी सामग्री (वीडियो, वर्कशीट्स या हैंडआउट्स के रूप में) प्रशिक्षकों और विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी।
- TMF हर NGO के लिए एक विशेष व्यक्ति (Single Point of Contact या SPOC) नियुक्त करेगा, जो परियोजना की पूरी अवधि के लिए NGO के साथ समन्वयन कायम करेगा।
- NGO की तरफ से मूल्यांकन कराने और विद्यार्थियों को एक प्रमाण पत्र का प्रावधान करने के लिए TMF हैल्थकेयर सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ समन्वय कायम करेगा।

Implementation Partners के लिए आर्थिक समर्थन:

उपर्युक्त के अलावा, टेक महिंद्रा फाउंडेशन द्वारा IP NGOs को आर्थिक समर्थन के रूप में निम्नलिखित धनराशि भी उपलब्ध कराई जाएंगी:

- प्रशिक्षण के पूरा होने पर प्रति अभ्यर्थी 300 रुपये।
- प्लेसमेंट पर प्रति अभ्यर्थी 200 रुपये।

HSSC को दिए जाने वाले प्रति अभ्यर्थी 200 रुपये के मूल्यांकन शुल्क की लागत का वहन भी TMF द्वारा ही किया जाएगा।

टेक महिंद्रा फाउंडेशन के बारे में

टेक महिंद्रा फाउंडेशन (TMF) शहरी भारत में एक अग्रणी कौशल विकास संगठन है। 2012 में शुरू किए गए अपने प्रमुख कार्यक्रम स्मार्ट (स्किल-फॉर-मार्केट ट्रेनिंग) के माध्यम से TMF संगठित क्षेत्र में प्रवेश में सक्षम बनाने के लिए 100,000 युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाला कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करा चुका है। 2016 में TMF ने सहायक स्वास्थ्य पेशेवरों (चिकित्सा सहायकों) को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रशिक्षण का स्तर बढ़ाया है। ऑपरेशन थिएटर सहायक, डायलिसिस टेक्नीशियन और मेडिकल लैब टेक्नीशियन जैसे विभिन्न डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध कराने के लिए तीन एकेडमी (दिल्ली, मोहाली और मुंबई में) स्थापित की गई हैं। फाउंडेशन अपने कुछ स्मार्ट केन्द्रों में सामान्य ड्यूटी सहायक (General Duty Assistants) और घरेलू स्वास्थ्य सहायक (Home Health Assistants) जैसे स्वास्थ्य से संबंधित अल्प कालिक कोर्स भी कराता है। उसका 11 बड़े शहरों में 93 कौशल विकास केन्द्रों (NGOs के साथ भागीदारी में चलने वाले) का नेटवर्क है। कुल मिलाकर, फाउंडेशन चिकित्सा सहायक के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ने के लिए 5,000 से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण दे चुका है। वर्तमान में उनमें से कई देश में कोविड-19 योद्धाओं के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, और विभिन्न अस्पतालों और कोविड-19 क्लीनिक्स में नौकरी कर रहे हैं।



TMF के बारे में और जानें: [TMF Facebook Page](#), [TMF Twitter Page](#), [TMF Instagram Page](#)